

बच्चे से क्यों न मिलें

कोर्ट अंकल:-

पिता से पूँछते हैं कि, आप बच्चे से क्यों मिलना चाहते हैं।
हे देश के कर्णधारों हम आपसे मदद मॉंगते हैं ॥

बच्चे की रगों में हमारा ही तो खून है।
सीने से लगकर हम दोनों को मिलता शकून है ॥

हमारा ये रिश्ता तो रब ने बनाया है।
23 जोड़े क्रोमोसोम से यह शरीर रचाया है ॥

एक युनिट खून तो क्या, खून का एक-एक कतरा हम दे देंगे।
अपने बच्चों की खातिर आग का दरिया भी पार कर लेंगे ॥

बच्चों हम हैं, तुम बिलकुल भी मत घबराना।
तुम्हारी खुशी के लिये जमाने को है जगाना ॥

राह है बहुत ही कठिन, फिर भी तुमको है बचाना।
चाहे इसके लिये कानून ही क्यों न पड़े बदलवाना ॥

आज खून दिया है, कल जान भी दे देंगे।
पर एक दिन बच्चों का हक दिलाकर रहेंगे ॥

Children need both parents